

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 26] नई दिल्ली, बुध्दिवार, जनवरी 27, 1977/माघ 7, 1898

No. 26] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 27, 1977/MAGHA 7, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

(Revenue Wing)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 27th January 1977

G.S.R. 42(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No 89/76-Central Excises, dated the 18th March, 1976, namely—

In the Table annexed to the said notification, in column 3, against S. No. 3, for the words "Rupees eighty-two per metric tonne" the words "Rupees sixty-five per metric tonne" shall be substituted.

[No. 15/77]

S N BUSI, Under Secy

राजस्व और बैंकिंग विभाग

(राजस्व पक्ष)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 1977

सा० का० नि० 42 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 89/76—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 16 मार्च, 1976 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में, क्रम सं० 3 के सामने, स्तम्भ 3 में, “बायासी रुपया प्रति मीट्री-टन” शब्दों के स्थान पर “पैंसठ रुपया प्रति मीट्री टन” शब्द रखे जायेंगे।

[सं० 15/77]

एस० एन० बूसी, अवर सचिव।

ERRATUM

In the Department of Revenue and Banking (Revenue Wing) Notification No. 450/F No 355/164/76-Cus I, dated the 18th December 1976, published in the Gazette of India Extraordinary, Part II—Section 3—Sub-section (i), dated the 18th December, 1976 under Issue No 414 and G.S.R. 930(E), the following Correction is to be made in the English version on page 2837.—

In the second paragraph (second line) for the words “hearing and appliances,” read the words “hearing aid appliances.”

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मन्त्रालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977